

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 फ़रवरी 2023

प्रश्न -1

सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची के लिए किस राज्य के चराइदेव मैदामभारत का नामांकन है?

- A) असम
- B) मणिपुर
- C) त्रिपुरा
- D) पश्चिम बंगाल

सही उत्तर: A

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में असम के चराइदेव मैदामदफन स्थलों का नाम आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

प्रश्न-2

निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने सात दिवसीय 'ऑपरेशन अलर्ट' अभ्यास आयोजित किया?

- A) BSF
- B) CISF
- C) CRPF
- D) SSB

सही उत्तर: A

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने गणतंत्र दिवस 2023 के मद्देनजर 21 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक गुजरात में सात दिवसीय 'ऑपरेशन अलर्ट' अभ्यास किया। यह अभ्यास भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर क्रीक से कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक आयोजित किया गया था।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 फ़रवरी 2023

प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कलवरी श्रेणी की पांचवीं पनडुब्बी INSवागिर का निर्माण किया है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था?

- A) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स
- B) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
- C) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
- D) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

सही उत्तर: D

भारतीय नौसेना की पांचवीं स्टील्थ स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी INSवागिर को 23 जनवरी 2023 को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) मुंबई द्वारा मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से भारत में स्कॉर्पीन श्रेणी की छह पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है।

प्रश्न-4

निम्नलिखित में से कौन 'कोचिंग बियाँड: माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम' नामक पुस्तक के लेखक हैं?

- A) विक्रम राठौर और आर. कौशिक
- B) आर. कौशिक और आर. श्रीधर
- C) भरत अरुण और संजय बांगड़
- D) आशीष कपूर और संजय बांगर

सही उत्तर: B

'कोचिंग बियाँड: माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम' पुस्तक के सह-लेखक आर. कौशिक और आर. श्रीधर हैं। यह पुस्तक मुख्य रूप से भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के रूप में आर. श्रीधर के सात साल के कार्यकाल पर केंद्रित है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 फ़रवरी 2023

प्रश्न-5

भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) की 18वीं वार्षिक आम बैठक की सह-अध्यक्षता _____ ने की थी।

- A) पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर
- B) जी. किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर
- C) धर्मेन्द्र प्रधान और जी. किशन रेड्डी
- D) अनुराग ठाकुर और धर्मेन्द्र प्रधान

सही उत्तर: C

केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE), गुवाहाटी की 18वीं वार्षिक आम सभा की सह-अध्यक्षता की है।

प्रश्न-6

निम्नलिखित में से किस शहर में यूथ-20 समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी?

- A) अहमदाबाद
- B) बेंगलुरु
- C) गुवाहाटी
- D) नई दिल्ली

सही उत्तर: C

जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर आयोजित यूथ-20 (Y20) समूह की पहली बैठक 6 फरवरी से 8 फरवरी तक गुवाहाटी में होगी। अगस्त 2023 में अंतिम यूथ-20 शिखर सम्मेलन से पहले पूरे भारत में पांच Y20 विषयों पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में से यह पहली बैठक है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 फ़रवरी 2023

प्रश्न-7

निम्नलिखित में से किस शहर में चौथा मिलेट्स और ऑर्गेनिक्स - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 आयोजित किया गया था?

- A) अहमदाबाद
- B) बेंगलुरु
- C) भुवनेश्वर
- D) नई दिल्ली

सही उत्तर: B

मिलेट्स और ऑर्गेनिक्स - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का चौथा संस्करण त्रिपुरावासिनी, बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और कृषि विभाग और कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। मेले का महत्व भारत के नेतृत्व में बढ़ रहा है और दुनिया 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मना रही है।

प्रश्न-8

मुंबई में एक दिवसीय राष्ट्रीय SC-ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन हाल ही में _____ के द्वारा किया गया था।

- A) सुरेश प्रभु
- B) पीयूष गोयल
- C) जितेंद्र सिंह
- D) नारायण राणे

सही उत्तर: D

केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में मुंबई में एक दिवसीय राष्ट्रीय SC-ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) और MSME मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 फ़रवरी 2023

प्रश्न-9

पूर्वोत्तर भारत में भारतीय वायु सेना (IAF) ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास आयोजित किया है?

- A) विष्णु
- B) शक्ति
- C) प्रलय
- D) आकाश

सही उत्तर: C

चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच , भारतीय वायु सेना ने पूर्वोत्तर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ अभ्यास प्रलय नामक पांच दिवसीय हवाई अभ्यास आयोजित किया। हाल के महीनों में भारतीय वायुसेना का इस तरह का यह दूसरा कमांड स्तर का अभ्यास है।

प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किस शहर में युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) ने दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल (MOC) बैठक आयोजित की?

- A) अहमदाबाद
- B) भुवनेश्वर
- C) हैदराबाद
- D) वाराणसी

सही उत्तर: B

युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) ने ओडिशा के भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप के दौरान 19 और 20 जनवरी को दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल (MOC) की बैठक आयोजित की।